

भारत सरकार  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3722  
3/4/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**भारत का चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में कार्यक्षम वाहन- मत्स्य-6000**

**3722 श्री भुबनेश्वर कालिता:**  
**श्री ईरण्ण कडाडी:**  
**डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:**

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या समुद्र की अत्यधिक गहराई पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य-6000 में कोई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो सरकार पानी के भीतर ध्वनि संचार की अक्षमताओं जैसे मुद्दों को किस तरह से हल करने की योजना बना रही है;
- (ग) क्या गहरे समुद्र में पनडुब्बी संचालन से संबंधित ज्ञान के आदान-प्रदान और कौशल संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानों के साथ सहयोग करने की कोई योजना है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) मत्स्य-6000 भारत की प्रमुख मानव पनडुब्बी है जिसका उद्देश्य तीन व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाना है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, जो 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन का भाग है।

मत्स्य- 6000 (2.1-मीटर व्यास वाला पर्सनेल स्फीयर) के अंदर कर्मी दल रहेगा, इसे टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है, तथा इसके अंदर 1 एटमॉस्फीयर (atm) का दबाव रहेगा। इसके अतिरिक्त, इस पर्सनेल स्फीयर के स्फेरिकल प्रेशर हुल को 720 बार प्रेशर सहन करने के लिए परीक्षण किया गया है, जो कि समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर अपेक्षित दाब से 1.2 गुणा अधिक है। संचालन के दौरान सभी मानव सुरक्षा मापदंडों की लगातार निगरानी की जाती है, और एक एकाउस्टिक मॉडम के माध्यम से जहाज आधारित मिशन कंट्रोल सेंटर के साथ संचार किया जाता है, पायलट हर 30 मिनट में अंडरवाटर एकाउस्टिक टेलीफोन के माध्यम से नवीनतम जानकारी भेजता रहता है। इसे 12 घंटे तक के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 96 घंटे तक की आपातकालीन सहनशक्ति है, जो कि एक DNV-प्रमाणित मानव सहायता और सुरक्षा प्रणाली (HSSS) द्वारा समर्थित है। DNV (डेट नॉर्स्क वेरिटास) एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार एवं क्लासिफिकेशन सोसायटी है, जिसका मुख्यालय नॉर्वे में है। HSSS ऑक्सीजन स्तर को 20 प्रतिशत, कार्बन डाईऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) को 1000 ppmv (पार्ट पर मिलियन बाई वॉल्यूम) से कम पर बनाए रखता है, तथा मानव जीवन को सहज और सुरक्षित बनाए रखने के लिए मेजरमेंट सेंसर द्वारा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। पनडुब्बी इस प्रकार डिजाइन की गई है कि यह हमेशा तैरती रहे, जब तक कि उसे इसके बैलास्ट टैंक में भरे पानी के माध्यम से गोता लगाने के लिए निदेशित न किया जाए। इसमें ऊपर सतह पर जाने के दौरान वजन कम करने के क्रियातंत्र के तीन अलग-अलग संयोजन हैं, ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें आपातकालीन परिदृश्यों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन पॉवर, नियंत्रण और संचार उपकरण हैं।

- (ख) मत्स्य-6000 में एक अंडरवाटर एकोस्टिक टेलीफोन लगाया गया है, जिसे मानव संचालन वाहनों में 10,000 मीटर की गहराई तक संचालन के लिए संचालित और परीक्षण किया गया है, इसके अलावा इसमें 500 मीटर की गहराई पर काम करने की रेटिंग वाला सब-फोन भी है। वॉयस कम्युनिकेशन को सबमर्सिबल पायलट और मिशन कंट्रोल सेंटर के साथ हर 30 मिनट में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि निरंतर संचार किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- (ग) जी हां।
- (घ) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने IFREMER (फ्रेंच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दि सी), के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सकेगा, और नॉटाइल (NAUTILE) नामक समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाली फ्रांसीसी मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी के साथ भागीदारी की जा सकेगी।

\*\*\*\*\*